



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 10—जून 16, 2006 (ज्येष्ठ 20, 1928)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 10 —JUNE 16, 2006 (JYAISTHA 20, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2006

सं. 285, दिनांक 5 मई 2006--राष्ट्रपति, श्री रवीन्द्र कुमार यादव को 01 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6500-10,500/- रुपये के वेतनमान में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री संजय शंकर को 5 अप्रैल, 2006 से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में डेस्क अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती
उप सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 286, दिनांक 4 मई 2006--राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (1972) के अधिकारी श्री के. एल. पी. राव को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 10 अप्रैल, 2006 के पूर्वाह्न से वित्तीय सलाहकार

(अधिप्राप्ति) तथा सदस्य (रक्षा अधिप्रापण बोर्ड) एवं अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री चरणजीत लाल को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में तदर्थ आधार पर दिनांक 03 अप्रैल, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, उप वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं।

डी. के. पाण्डेय
निदेशक (वित्त/स्थापना)

सेना शाखा

सं. 287, दिनांक 9 मई 2006--राष्ट्रपति विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 06 मार्च 2004 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए तारीख 06 नवम्बर 99 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 06 मार्च 99 से वरिष्ठता के साथ

लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 06 मार्च 2004 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन दिया जाएगा उसकी/उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी।

एसएस सं., आईसी सं., नाम व आर्म/सर्विस

एसएस 37747 (आईसी 56491एन) पिय दर्शन चौधरी, आर्टी

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 04 मार्च 2005 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए तारीख 04 नवम्बर 2000 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 04 मार्च 2000 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 04 मार्च 2005 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन दिया जाएगा उसकी/उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी।

एसएस सं., आईसी सं., नाम व आर्म/सर्विस

एसएस 38426 (आईसी 64923एम) प्रदिप मुखर्जी, इंजीनियर्स

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 02 सितम्बर 2005 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए तारीख 02 मई 2001 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 02 सितम्बर 2000 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 02 सितम्बर 2005 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन दिया जाएगा उसकी/उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी।

एसएस सं., आईसी सं., नाम व आर्म/सर्विस

एसएस 38768 (आईसी 65082एफ) अरुन कुमार दत्ता, इंजीनियर्स

एम. एल. एम. श्रवण कुमार
कर्नल

कर्नल एम एस-7

सं. 288, दिनांक 9 मई 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 11 जून 2005 से)

श्रीनाथ रेड्डी सी (वाईसी-67035एच) एडो ज्येष्ठता जीतेश पी (आईसी-67034ए) इन्फैन्ट्री के नीचे जिनका नाम भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना में दिनांक 14 जनवरी 2006 को प्रकाशित किया गया है।

चन्द्र शेखर

ले. कर्नल

एमएस-8बी

नौसेना शाखा

सं. 289, दिनांक 9 मई 2006--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ओ एफ/1601/एन एच व्यू/1158/यूएस(पी)/डीएन-II दिनांक 04 सितम्बर 02 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा नौसेना आयुध निरीक्षण कैंडर में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले. के रैंक में परखाधीन

सीधी भर्ती योजना (नौसेना आयुध निरीक्षण कैंडर)

नाम, निजी सं., कमीशन की किस्म, कमीशन की तिथि

ईन्जे श्री निवास भगवान दास (05198-एन) स्थायी, 02 जुलाई 2001

शिशिर कुमार यादवन्नावर (05200-टी) स्थायी, 04 जुलाई 2001

ओ. पी. वर्मा

कमांडर

संयुक्त निदेशक

जनशक्ति नियोजन एवं भर्ती

निदेशालय (आर एण्ड आर)

सं. 290, दिनांक 5 मई 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड "क" और "ख") के पद पर और आगे बढ़ाते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	से	तक
	सर्वश्री		
1.	जे. पी. माथुर	1.3.2006	31.5.2006
2.	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	1.3.2006	31.5.2006
3.	नरेन्द्र चड्ढा	1.3.2006	31.5.2006
4.	हरविन्दर चावला	1.3.2006	31.5.2006

वी. सरस्वती

अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 291, दिनांक 04 मई 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में शामिल किए गए श्री एस.पी. कपूर, आशुलिपिक समूह-ग की इस प्रभाग में नियुक्ति

की अवधि को दिनांक 1.3.2006 से 31.5.2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति देते हैं।

दिलीप कुमार पाण्डेय,
निदेशक (वित्त/स्थापना)

वायु शाखा

सं. 292, दिनांक 08 मई 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था की पुष्टि उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक अभियांत्रिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर राजुल जैन (28155) ए. ई. (एल), सेकर गायत्री (28142) ए. ई. (एल), प्रियंका भट्टाचार्या (28164) ए. ई. (एल), रिचा मंत्री (28153) ए. ई. (एम), सपना नानासाहेब देशमुख (28138) ए. ई. (एम), जयशीला जी (28165) ए. ई. (एम), वेनु धारीवाल (28143) ए. ई. (एम), विलमा अलमगेदा मुड्ड्या (28151) ए. ई. (एम), तनीसलस अण्ठेनी अण्ठे गैटी सुहन्मया (28152) ए. ई. (एम), लिमना नारायणन (28154) ए. ई. (एम), डी. शुभा वनी (28139) ए. ई. (एम), अननया रे (28141) ए. ई. (एम), नेहा पुरी (28150) ए. ई. (एम), गिरिजा देवी मोहनन सरसामा (28145) ए. ई. (एम), प्रिया दीप (28149) ए. ई. (एम), पियुष यादवा (28166) ए. ई. (एम), सुमति साजगिरि (28148) ए. ई. (एम), रेनु (28147) ए. ई. (एम), मनप्रीत कौर (28167) ए. ई. (एम), सोवमीलता शेटी (28146) ए. ई. (एम), लतिका शर्मा (28144) ए. ई. (एम), 29 जून 2005 से।

संजीव श्रीवास्तव,
विंग कमाण्डर
जे.डी.पी.ओ. 3(डी.)

सेना शाखा

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 293, दिनांक 04 मई 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार लिपिक : जी.डी./एस.डी.

नायब सूबेदार जौसेफ पैट्रिक (जेसी-642277एक्स), 09 जनवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार दलीप सिंह चम्बेल (जेसी-642278ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार रामनिवास अग्निहोत्री (जेसी-642697एक्स), 16 जनवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-642365एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-642363एच), 04 फरवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार मिश्र (जेसी-642364एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सतपाल (जेसी-642366डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार भाभा रंजन राय (जेसी-642367वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार राम नारायण (जेसी-642388पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह राना (जेसी-642389एक्स), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार उदय पाल सिंह (जेसी-642390एम), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-642391पी), 03 मार्च 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)।

सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक)

नायब सूबेदार मोहनन पिल्ले वी एन (जेसी-642694के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार बालासुब्रमनियन आर. (जेसी-642799एन), 15 अक्टूबर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-642812एम), 22 जनवरी 2006*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार राकेश कुमार सागर (जेसी-642814एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार लुकोश वी. टी. (जेसी-642856के), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार अशोक कुमार सिरौही (जेसी-642817एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार दिलीप कुमार सिंह (जेसी-642804एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार लिपिक: जी.डी./एस.डी.

हवलदार परमहंस यादव (सं. 6378308के अब जेसी-663816डब्ल्यू), 02 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)।

हवलदार राजेश्वर यादव (सं. 6378311के अब जेसी-663817वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार राम उजागिर (सं. 6378314एक्स अब जेसी-663818एफ), 01 फरवरी 2006

हवलदार ओमेन्द्र पाल सिंह चौहान (सं. 6378310एफ अब जेसी-663828एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार जयबीर (सं. 6378307एफ अब जेसी-663882वाई), 10 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)।

हवलदार सुरेश चन्द्र प्रजापती (सं. 6378324एफ अब जेसी-663883एफ), 01 मार्च 2006

हवलदार शिव करण सिंह (सं. 6378454के अब जेसी-663884के), 01 मार्च 2006

हवलदार विपिन कुमार कुनिहाल (सं. 6378507एक्स अब जेसी-663885एम), 01 मार्च 2006

हवलदार विद्या सागर (सं. 6378552के अब जेसी-663886पी), 01 मार्च 2006

हवलदार विजय शंकर सिंह (सं. 6378593एन अब जेसी-663887एक्स), 01 मार्च 2006

हवलदार वी एस गुना सेकरन (सं. 6378584एफ अब जेसी-663888ए), 01 मार्च 2006

हवलदार जी सुन्द्रा राजन (सं. 6378636एक्स अब जेसी-663889एच), 01 मार्च 2006

हवलदार इंदर सिंह (सं. 6378620एम अब जेसी-663890एक्स), 01 मार्च 2006

हवलदार हेमंत कुमार मिश्रा (सं. 6378644डब्ल्यू अब जेसी-663891ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक)

हवलदार दीप चंद (सं. 6376427एफ अब जेसी-663819के), 10 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाएगी)।

हवलदार नेत राम बैरागी (सं. 6379943एफ अब जेसी-663820वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार सोमन टी एम (सं. 14614473एक्स अब जेसी-663829एन), 28 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)।

हवलदार शेर बहादुर (सं. 6379115डब्ल्यू अब जेसी-663830एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार विष्णुदेव प्रसाद चौहान (सं. 6379862एफ अब जेसी-663831एल), 01 फरवरी 2006

हवलदार उमेश सिंह (सं. 2981207ए अब जेसी-663892एच), 01 मार्च 2006

हवलदार रमेश चंद यादव (सं. 6378095एफ अब जेसी-663893एल), 01 मार्च 2006

हवलदार महेश चन्द्र यादव (सं. 2778960के अब जेसी-663894एन), 01 मार्च 2006

हवलदार बिजोय कुमार राय (सं. 6378067पी अब जेसी-663895डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार मदन लाल (सं. 6378927एक्स अब जेसी-663896वाई), 01 मार्च 2006

यांत्रिक परिवहन और पूर्ति

नायब सूबेदार (एमटी)

हवलदार विजय कुमार प्रभुनाथ तिवारी (सं. 13883849एम अब जेसी-663760पी), 08 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार जगत कुमार राय (सं. 13884328एल अब जेसी-663761एक्स), 29 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम दबन (सं. 13877706डब्ल्यू अब जेसी-663762ए), 18 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राज कुमार (सं. 13881699एच अब जेसी-663763एच),
28 दिसम्बर 2005 *

हवलदार डांडे वेंकटेश्वर राव (सं. 13885647के अब जेसी-
663764एल), 18 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बाबू लाल यादव (सं. 13886304ए अब जेसी-663765एन),
15 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 22 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम मिलन यादव (सं. 13885968एफ अब जेसी-
663766डब्ल्यू), 31 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 29 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार उमेद सिंह (सं. 13886302पी अब जेसी-663767वाई),
13 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार किशुन प्रसाद (सं. 13891357एच अब जेसी- 663768एफ),
19 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 22 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कुवर पाल सिंह (सं. 13885905वाई अब जेसी-663769के),
01 अक्तूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मोहम्मद नाजिम (सं. 13891701एच अब जेसी-
663770वाई), 15 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अब्दुल सलाम (सं. 13891723एफ अब जेसी-663771एफ),
01 अक्तूबर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार भगवान भगत (सं. 13886533एल अब जेसी-663772के),
31 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 29 अक्तूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हरि नारायण राय (सं. 13891121एन अब जेसी-663773एम),
22 दिसम्बर 2005 *

हवलदार सोमनाथ (सं. 13889455के अब जेसी-663774पी),
19 दिसम्बर 2005 *

हवलदार विश्वनाथ घोष (सं. 13884126के अब जेसी-663775एक्स),
10 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार तेज राम (सं. 13891328एन अब जेसी-663776ए),
01 दिसम्बर 2005

हवलदार जयबीर सिंह (सं. 13885457एक्स अब जेसी-663777एच),
03 जनवरी 2006 *

हवलदार पारस नाथ सिंह (सं. 13883606एफ अब जेसी-663778एल),
17 दिसम्बर 2005 *

हवलदार पदम चरन मोहंती (सं. 13890294वाई अब जेसी-
663779एन), 17 दिसम्बर 2005 *

हवलदार मदन सिंह (सं. 13887485एच अब जेसी-663780एच),
23 दिसम्बर 2005 *

हवलदार इलम चन्द (सं. 13891349के अब जेसी-663781एल),
01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार राज देब सिंह (सं. 13891185वाई अब जेसी-663782एन),
12 जनवरी 2006 *

हवलदार सुरेश बाबु (सं. 13889232एम अब जेसी-663783डब्ल्यू),
20 दिसम्बर 2005 *

हवलदार निसार अहमद (सं. 13888681पीअब जेसी-663784वाई),
26 दिसम्बर 2005 *

हवलदार टी पी एल भाई मधु भाई (सं. 13887575के अब जेसी-
663785एफ), 12 जनवरी 2006 *

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद नापित (सं. 138890857एन अब जेसी-
663786के), 17 जनवरी 2006 *

हवलदार सदन चन्द्र राय (सं. 13889175डब्ल्यू अब जेसी-
663787एम), 05 जनवरी 2006 *

हवलदार विजय पाल सिंह (सं. 13886730एन अब जेसी-
663788पी), 03 जनवरी 2006 *

हवलदार मोहम्मद फ़जल अहमद (सं. 13890871ए अब जेसी-
663789एक्स), 26 दिसम्बर 2005 *

हवलदार पी थंगाप्पणी (सं. 13886940एन अब जेसी-663790एम),
06 दिसम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार यश पाल (सं. 13877588एन अब जेसी-663791पी),
03 जनवरी 2006 *

हवलदार सी एल भाई बाबु राव (सं. 13887297एफ अब जेसी-663792एक्स), 03 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13886355एन अब जेसी-663706एफ), 24 नवम्बर 2005 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अकोइजाम रोबिन्द्रो सिंह (सं. 14814930के अब जेसी-663832एन), 24 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 24 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मालेदु श्रीनिवासुलु (सं. 13889259के अब जेसी-663833डब्ल्यू), 10 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 07 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अर्जुन प्रसाद (सं. 13889431ए अब जेसी-663834वाई), 26 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम कृष्ण प्रसाद (सं. 13883380एफ अब जेसी-663835एफ), 19 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गंधर्भ सिंह (सं. 13888114एम अब जेसी-663836के), 24 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गोकल चन्द्र शर्मा (सं. 13888349वाई अब जेसी-663837एम), 06 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार के.वेंकटेश्वर राव (सं. 13885652पी अब जेसी-663838पी), 08 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 29 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रामजी प्रसाद (सं. 13889885एन अब जेसी-663839एक्स), 22 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम किशन (सं. 13890795वाई अब जेसी-663840एम), 16 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 14 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार मिश्रा (सं. 13887110के अब जेसी-663841पी), 01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 22 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार विरेन्द्र नाथ मजूमदार (सं. 13887124के अब जेसी-663842एक्स), 30 जनवरी 2006 *

हवलदार कामेश्वर सिंह (सं. 13891425एल अब जेसी-663843ए), 17 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 20 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अरुण कुमार साहना (सं. 13889250पी अब जेसी-663844एच), 18 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 24 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार विजय कुमार त्रिपाठी (सं. 13890676एच अब जेसी-663845एल), 23 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार नवल किशोर सिंह (सं. 13887160पी अब जेसी-663846एन), 23 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 29 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 13887518एच अब जेसी-663847डब्ल्यू), 27 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जगराम सिंह (सं. 13886425एफ अब जेसी-663848वाई), 10 फरवरी 2006 *

हवलदार कृष्ण पाल सिंह (सं. 13890862वाई अब जेसी-663849एफ), 09 जनवरी 2006 *

हवलदार हीरा सिंह (सं. 13886767पी अब जेसी-663850डब्ल्यू), 25 जनवरी 2006 *

हवलदार ज्योतिबा हरि गोडसे (सं. 13891093एम अब जेसी-663851वाई), 27 जनवरी 2006 *

हवलदार राम दत्त भट्ट (सं. 13889512ए अब जेसी-663852एफ), 21 जनवरी 2006 *

हवलदार नरेन्द्र सिंह धामी (सं. 13887467ए अब जेसी-663853के),
21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार आनन्दी शर्मा (सं. 13889432ए अब जेसी-663854एम),
23 जनवरी 2006 *

हवलदार मोहम्मद साहजहाँ (सं. 13885442पी अब जेसी-663855पी),
03 फरवरी 2006 *

हवलदार सुन्दर राजन (सं. 13889994ए अब जेसी-663856एक्स),
14 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार नरेन्द्र कुमार राय (सं. 13890899ए अब जेसी-663857ए),
01 जनवरी 2006 *

हवलदार नरेन्द्र चन्द्र (सं. 13885483वाई अब जेसी-663858एच),
10 फरवरी 2006 *

हवलदार मुनेश कुमार (सं. 13883056के अब जेसी-663859एल),
04 फरवरी 2006 *

हवलदार चन्द्र कान्त कुमार (सं. 13885740एल अब जेसी-663860ए),
16 जनवरी 2006 *

हवलदार रन विजय सिंह (सं. 13894163एल अब जेसी-663861एच),
01 फरवरी 2006 *

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13890830डब्ल्यू अब जेसी-663862एल),
02 फरवरी 2006 *

हवलदार तेज सिंह (सं. 13889556एक्स अब जेसी-663863एन),
13 फरवरी 2006 *

हवलदार सुर्य नारायण सिंह (सं. 13883535एल अब जेसी-
663864डब्ल्यू), 02 फरवरी 2006 *

हवलदार सीता राम सिंह तोमर (सं. 13887585डब्ल्यू अब
जेसी-663865वाई), 08 फरवरी 2006 *

हवलदार रमेश कुमार (सं. 13889110एच अब जेसी-663866एफ),
04 फरवरी 2006 *

हवलदार राम निवास कवि (सं. 13891100एक्स अब जेसी-
663867के), 04 फरवरी 2006 *

हवलदार होरेन्द्र सिंगा (सं. 13881272एन अब जेसी-663868एम),
28 जनवरी 2006 *

हवलदार शिब प्रसाद महापात्रा (सं. 13886040के अब
जेसी-663869पी), 21 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार देवता दीन (सं. 13890888एन अब जेसी- 663870के),
03 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बिनेश्वर राय (सं. 13881930ए अब जेसी-663871एम),
19 जनवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 13894023वाई अब जेसी-663872पी),
01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार प्रभास चन्द्र बराल (सं. 13890247एफ अब जेसी-
663873एक्स), 01 फरवरी 2006 *

हवलदार बिरेन्द्र सिंह (सं. 13891178एच अब जेसी-663874ए),
01 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार महेश कुमार चौधरी (सं. 13884192एम अब जेसी-
663875एच), 20 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बाबु एन (सं. 13886952एच अब जेसी- 663876एल), 01
फरवरी 2006 *

हवलदार रजेन्द्र सिंह (सं. 13886471डब्ल्यू अब जेसी-663877एन),
26 फरवरी 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

तोपखाना रेजिमेंट

सब्रैटिव सूबेदार मेजर के पद में (ए आई जी)

सूबेदार कमलजीत सिंह (जेसी-2036908के), 13 फरवरी 2006/01
जनवरी 2006 *

सूबेदार शेख मस्तान (जेसी-255305के), 14 फरवरी 2006/
01 जनवरी 2006 *

सूबेदार सूबे सिंह मान (जेसी-257256एल), 02 मार्च 2006/01 जनवरी
2006 *

सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-256874के), 03 फरवरी 2006/01 फरवरी
2006 *

सूबेदार ए अन्नगामुथु एस एम (जेसी-256870एच), 01 जनवरी 2006

सूबेदार विजय कुमार (जेसी-257437डब्ल्यू), 02 मार्च 2006/
01 मार्च 2006 *

सब्रैटिव सूबेदार मेजर के पद में (जी डी)

सूबेदार राम नाथ (जेसी-200248एम), 12 जून 2003/01 मई 2003 *

सूबेदार राधाकृष्णन (जेसी-214403पी), 01 जुलाई 2003

सूबेदार ममोद कोया (जेसी-226104एच), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार मोहन राम यादव (जेसी-203323एक्स), 02 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 *

सूबेदार बाबू राज के ई (जेसी-256616के), 08 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

सूबेदार प्रितम सिंह सोनी (जेसी-259243एम), 01 जनवरी 2006

सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-257513एक्स), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

सूबेदार करम सिंह (जेसी-225918के), 18 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

सूबेदार तपन कुमार (जेसी-256423के), 16 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

सूबेदार पी एक्स थंकाचन (जेसी-259678पी), 19 मार्च 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार मुरलीधरन ए (सं. 14363885के अब जेसी-268855एल), 17 अक्तूबर 2005/01 अगस्त 2005 *

हवलदार अमर सिंह (सं. 14482370एन अब जेसी-268856एन), 28 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार ए महादेवन (सं. 14370540एल अब जेसी-268857डब्ल्यू), 23 जनवरी 2006/19 नवम्बर 2005 *

हवलदार राज हर्ष (सं. 14477614एम अब जेसी-268858वाई), 21 जनवरी 2006/22 नवम्बर 2005 *

बीएचएम सुखविन्दर सिंह (सं. 14478076डब्ल्यू अब जेसी-268859एफ), 13 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार प्रताप चन्द (सं. 14479420एच अब जेसी-268860डब्ल्यू), 20 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005 *

हवलदार लाल सिंह (सं. 14472835पी अब जेसी-268861वाई), 19 जनवरी 2006/05 दिसम्बर 2005 *

बीएचएम हरबीर सिंह (सं. 14474353वाई अब जेसी-268862एफ), 03 फरवरी 2006/13 दिसम्बर 2005 *

बीएचएम जगत बहादुर सिंह (सं. 14487416पी अब जेसी-268863के), 16 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार राम चन्द्रा (सं. 14361423वाई अब जेसी-268864एम), 24 फरवरी 2006/05 जनवरी 2006 *

हवलदार कुन्दन रंगा रेड्डी (सं. 15111955पी अब जेसी-268865पी), 22 फरवरी 2006/29 जनवरी 2006 *

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 14480734डब्ल्यू अब जेसी-268866एक्स), 24 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार धर्म मिश्र शेखावत (सं. 14366387एच अब जेसी-

हवलदार बाबू लाल मिना (सं. 14482503वाई अब जेसी-268868एच), 01 फरवरी 2006

हवलदार बुटा राम (सं. 14373550ए अब जेसी-268869एल), 08 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार शेख ईकबाल हुसेन (सं. 14488035ए अब जेसी-268870ए), 01 फरवरी 2006

सीएचएम एम डी बदरोद डोझा (सं. 14477899के अब जेसी-268827वाई), 07 फरवरी 2006/03 नवम्बर 2005 *

आरएचएम राम लाल (सं. 14388790पी अब जेसी-268828एफ), 14 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम नारायना रेड्डी चिला कला (सं. 15120709एल अब जेसी-268829के), 14 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम बरप्पदु रायपू (सं. 15125525डब्ल्यू अब जेसी-268830वाई), 16 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम राजेशन सी एम (सं. 15115667ए अब जेसी-268831एफ), 14 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम राम लाल (सं. 15109787एच अब जेसी-268832के), 22 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम ब्रह्म प्रकाश (सं. 15113847के अब जेसी-268833एम), 14 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम हलदर सिंह (सं. 14399789ए अब जेसी-268834पी), 21 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम राम अवतार (सं. 15115739वाई अब जेसी-268835एक्स), 14 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम गुरपाल सिंह मेड़ना (सं. 14400639वाई अब जेसी-268836ए), 24 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम खगोलहेम लक्ष्मन सिंह (सं. 15116269एल अब जेसी-268837एच), 21 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम चितरंजन अधिकारी (सं. 15118928एन अब जेसी-268838एल), 14 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम उपेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 15114432एफ अब जेसी-268839एन), 14 जनवरी 2006/31 दिसम्बर 2005 *

सेना वायु रक्षा कोर

नायब सूबेदार के पद में

बीएचएम कुलदीप राज (सं. 14362545पी अब जेसी-299439एच), 27 दिसम्बर 2005/05 दिसम्बर 2005 *

बीएचएम सुसीलन सी के (सं. 14378429डब्ल्यू अब जेसी-299440एक्स), 14 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

बीएचएम सम्माजी सरगरे (सं. 14381658एम अब जेसी-299441ए),

बीएचएम किशन लाल गुर्जर (सं 14384398एक्स अब जेसी-299442एच), 01 फरवरी 2006

बीएचएम रनबीर सिंह (सं 14382451वाई अब जेसी-299443एल), 01 फरवरी 2006

बीएचएम पुरन सिंह (सं 14374888एक्स अब जेसी-299444एन), 01 फरवरी 2006

बीएचएम नरेश कुमार (सं 14483074पी अब जेसी-299445डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

बीएचएम कुंवर सिंह (सं 14359930एन अब जेसी-299446वाई), 01 फरवरी 2006

बीएचएम शाजी एन (सं 14382468एम अब जेसी-299447एफ), 01 फरवरी 2006

बीएचएम जसपाल (सं 14354774एल अब जेसी-299448के), 01 फरवरी 2006

बीएचएम स्वपन चंद्र घोष (सं 14384689एक्स अब जेसी-299449एम), 06 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

बीएचएम रघुपाल सिंह (सं 14373009एम अब जेसी-299450एफ), 06 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

बीएचएम तोगी जगन्नाथा राव (सं 14359684एन अब जेसी-299451के), 13 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

बीएचएम रूप सिंह (सं 14361526एक्स अब जेसी-299452एम), 21 फरवरी 2006/17 फरवरी 2006 *

हवलदार बलविंदर सिंह (सं 14377539वाई अब जेसी-299453पी), 01 मार्च 2006

बीएचएम हरेद्र रॉय (सं 14478047एफ अब जेसी-299454एक्स), 01 मार्च 2006

आरएचएम हैदर कथाट (सं 14409072पी अब जेसी-299455ए), 23 जनवरी 2006/28 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम पी वीरा पुथीरन (सं 14414042एफ अब जेसी-299456एच), 23 जनवरी 2006/28 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम तुलशी चरन घोष (सं 14412724एन अब जेसी-299457एल), 17 जनवरी 2006/28 दिसम्बर 2005 *

आरएचएम विक्रम सिंह (14406632एल अब जेसी-299458एन), 12 जनवरी 2006/28 दिसम्बर 2005 *

हवलदार गोपाल मल्ला (14476840एक्स अब जेसी-299459डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार अशोक कुमार यादव (14376060एक्स अब जेसी-299460एल), 16 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार नरिंदर सिंह मनिहनी (14376219एक्स अब जेसी-299461एन), 01 मार्च 2006

बीएचएम हरे राम सिंह (14369882एम अब जेसी-299462डब्ल्यू), 16 जनवरी 2006/28 नवम्बर 2005 *

बीएचएम अजय कुमार (14385302डब्ल्यू अब जेसी-299463वाई), 14 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

हवलदार अनुज कुमार (14366636डब्ल्यू अब जेसी-299464एफ), 03 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 *

बीएचएम एम रामाकृष्णन (14361121एम अब जेसी-299465के), 01 फरवरी 2006

हवलदार रविंद्र कुमार (14368595डब्ल्यू अब जेसी-299466एम), 01 फरवरी 2006

आरएचएम मंजित सिंह (14353501डब्ल्यू अब जेसी-299467पी), 06 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

बीएचएम दिल बहादुर थापा (14379610ए अब जेसी-299468एक्स), 13 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

हवलदार शिव प्रसाद (14487402पी अब जेसी-299469ए), 16 फरवरी 2006/01 फरवरी 2006 *

बीएचएम कौशल प्रसाद द्विवेदी (14361652के अब जेसी-299470पी), 01 मार्च 2006

बीएचएम बलविंदर सिंह (3381218एल अब जेसी-299471एक्स), 01 मार्च 2006

आरएचएम प्रसाद पी (14374633एक्स अब जेसी-299472ए), 01 मार्च 2006

बीएचएम शिव प्रताप सिंह (14473109एम अब जेसी-299473एच), 01 मार्च 2006

बीएचएम वडाला कासिम पीरा (14374830ए अब जेसी-299474एल), 01 मार्च 2006

(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

विशेष सूची

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार धर्म शिक्षक (पंडित) के रैंक में

प्रमोद कुमार शुक्ला (जेसी-375256एच), 01 नवम्बर 2003

रामानंद तिवारी (जेसी-375437एन), 01 नवम्बर 2003

संजय कुमार शर्मा (जेसी-375540वाई), 25 सितम्बर 2004

उमेश कुमार त्रिपाठी (जेसी-375709एच), 11 दिसम्बर 2005

राम तीरथ त्रिपाठी (जेसी-375710एक्स), 11 दिसम्बर 2005

दिनेश चन्द्र शुक्ला (जेसी-375711ए), 19 फरवरी 2005

गोविन्द शास्त्री (जेसी-375712एच), 19 फरवरी 2005

शेलेन्द्र कुमार पांडेय (जेसी-375713एल), 19 फरवरी 2005

बृजेश्वर प्रसाद द्विवेदी (जेसी-375916पी), 20 अगस्त 2005

त्रिपाठी निखलेश्वरी रमन (जेसी-376249वाई) 10 दिसम्बर 2005

वेद प्रकाश मिश्रा (जेसी-376250एन), 10 दिसम्बर 2005

स्थायी सूबेदार धर्म शिक्षक (पंडित) के रैंक में

नायब सूबेदार राम नाथ (जेसी-368102एन), 12 अप्रैल 2003

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अवधेश प्रसाद तिवारी (जेसी-368790एक्स), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार पीयूष देव सारस्वत (जेसी-369072एन), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार भैरव नाथ पाठक (जेसी-369074वाई), 13 दिसम्बर 2004

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार कृपा शंकर वर्मा (जेसी-369071एल), 08 फरवरी 2005

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार केशव नाथ पांडेय (जेसी-369452एम), 14 जनवरी 2005

नायब सूबेदार श्री राम मिश्रा (जेसी-369749एन), 14 जनवरी 2005

स्थायी सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) पंडित के रैंक में

सूबेदार दिगम्बर प्रसाद बालुनी (जेसी-89514के), 01 मार्च 2003

सूबेदार राम मनोहर तिवारी (जेसी-89958एन), 01 अप्रैल 2003

सूबेदार लाल मनी मिशर (जेसी-91041पी), 01 मई 2003

सूबेदार कुलभूषण मिश्रा (जेसी-92716डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार नारायण राव (जेसी-92721एफ), 08 दिसम्बर 2003

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जायेगी)।

सूबेदार दशरथ प्रसाद त्रिपाठी (जेसी-92722के), 01 जनवरी 2004

सूबेदार अमर नाथ त्रिपाठी (जेसी-93723एम), 16 जनवरी 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)।

सूबेदार राम बिलास तिवारी (जेसी-94410एम), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार जगदीश प्रसाद गोस्वामी (जेसी-101057एच), 01 मार्च 2005

सूबेदार लाल मनी त्रिपाठी (जेसी-124888एफ), 04 जुलाई 2005

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)।

सूबेदार रामजीत मिश्रा (जेसी-124886डब्ल्यू), 01 जून 2005

सूबेदार भगवान प्रसाद शुक्ला (जेसी-124887वाई), 01 जून 2005

स्थायी सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) पादरी के रैंक में

सूबेदार बनोई जोसेफ विजया राज कुमार (जेसी-95076एच), 07 जून 2004

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)।

एस. पी. शर्मा
अवर सचिव

सं. 294. दिनांक 05 मई 2006, राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भुलन सिंह (जेसी-802972एन), 07 नवम्बर 2005@

नायब सूबेदार योगेश कुमार सैनी (जेसी-802978पी), 08 दिसम्बर 2005@

@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार श्याम सिंह शेखावत (जेसी-802994एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार आर. इलंगो (जेसी-803001पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-803006एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राम लड़ैते श्रीवास्तव (जेसी-803007डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार एम वैकट रामा कुमार (जेसी-803009एफ), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार प्रशोतम लाल शर्मा (जेसी-803014एम), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार हरिश्चन्द्र उप्रेती (जेसी-803019एल), 10 दिसम्बर 2005#

नायब सूबेदार श्री भगवान (जेसी-803012एफ), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राम प्रसाद (जेसी-803016एक्स), 05 दिसम्बर 2005#

#(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अशोक कुमार राठी (जेसी-803025वाय), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार उल्फत सिंह (जेसी-803029पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-803036एल), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार/लिपिक सुनीत कुमार (जेसी-803181एच), 02 जनवरी 2006=

=(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कमलेश कुमार पाण्डेय (सं. 9509706एम अब जेसी-803745ए),
22 जून 2005=

हवलदार जगदीश पाल (सं. 9509827एन अब जेसी-803751एन),
22 जून 2005=

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 जून 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 9509859डब्ल्यू अब जेसी-803774पी),
30 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार राजपाल (सं. 9509865के अब जेसी-803776ए),
01 सितम्बर 2005

हवलदार रमेश सिंह गुसाई (सं. 9509867पी अब जेसी-803777एच),
01 सितम्बर 2005

हवलदार राम प्रताप (सं. 9509872ए अब जेसी-803780एच),
01 सितम्बर 2005

हवलदार जय कृष्ण टिक्कू (सं. 9509873एच अब जेसी-803781एल),
01 सितम्बर 2005

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 9509876डब्ल्यू अब जेसी-803783डब्ल्यू),
22 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार ब्रह्मा नंद द्विवेदी (सं. 9509877वाई अब जेसी-
803784वाई), 26 अक्टूबर 2005*

हवलदार राधे श्याम (सं. 9509878एफ अब जेसी-803785एफ),
22 अक्टूबर 2005*

हवलदार श्याम बिहारी राय (सं. 9509879के अब जेसी-803786के),
22 अक्टूबर 2005*

हवलदार सुकान्त कुमार मल्लिक (सं. 9509885एक्स अब जेसी-
803789एक्स), 21 अक्टूबर 2005*

हवलदार जीत पाल (सं. 9509888एल अब जेसी-803790एम),
22 अक्टूबर 2005*

हवलदार राम प्रकाश शुक्ल (सं. 9509890एच अब जेसी-
803792एक्स), 10 नवम्बर 2005*

हवलदार भुपिन्द्र पाल सिंह (सं. 9509904एक्स अब जेसी-803796एन),
22 अक्टूबर 2005*

हवलदार भूपाल सिंह (सं. 9509910एल अब जेसी-803799एफ),
05 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

हवलदार नवीन चन्द्र खुल्वे (सं. 9509911एन अब जेसी-803800एल),
04 नवम्बर 2005\$

हवलदार उमेश सिंह (सं. 9509912डब्ल्यू अब जेसी-803801एन),
07 नवम्बर 2005\$

हवलदार प्रमोद चन्द्र पाण्डे (सं. 9509931एफ अब जेसी-803803वाई),
01 नवम्बर 2005

हवलदार नारायण डाकुआ (सं. 9509932के अब जेसी-803804एफ),
07 नवम्बर 2005\$

हवलदार चिमनलाल सैनी (सं. 9509936ए अब जेसी-803806एम),
01 नवम्बर 2005

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी।)

विजय कपूर,
अवर सचिव

सं. 295, दिनांक 05 मई 2006, राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी की
सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन कृष्णा कुमार (टी. ए. सं.-42286), इन्फैन्ट्री, 04 जुलाई 2005

बी. के. मल्होत्रा,
अवर सचिव

सं. 296, दिनांक 09 मई 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों की पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कौर)

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के रैंक में
एन. के. परमार (एम.आर.-03364एक्स), 07 सितम्बर 2005 वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 02 जून 2005 से दी जाती है।

एच. एस. गुलेरिया (एम.आर.-03743एन), 01 सितम्बर 2005

बी. पी. पठानिया (एम.आर.-03385एन), 06 सितम्बर 2005 वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 02 सितम्बर 2005 से दी जाती है।

कर्नल (व समकक्ष) ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के रैंक में

एन राय चौधरी (एम.आर.-03415डब्ल्यू), 06 अप्रैल 2005 वेतन व
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 जनवरी 2005 से दी
जाती है।

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर
उप स.नि.स. से.चि.से. (का.)

सं. 297, दिनांक 08 मई 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

नाम, आई.सी.आर्म मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

ब्रिगेडियर आई जे कोशी (आई. सी.-23011), आर्टी, 01 मार्च 2003

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

क्र सं. नाम, आईसी, आर्म और ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी व पेंशन तिथि

कर्नल अर्जुन रॉय (आई.सी.-27676), एओसी, 02 अप्रैल 2004 से जयेष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जुलाई 2003 से दी जाएगी।

कर्नल सी. एम. राय (आई.सी.-30029), एमएलआई, 01 मई 2004 से जयेष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2004 से दी जाएगी।

एन. के. फूकन,
ए.एम.एस. (एम्स)

वायु सेना मुख्यालय

सं. 298, दिनांक 04 मई 2006--राष्ट्रपति सहर्ष, श्री राम निवास, वरिष्ठ अनुवादक (हिन्दी/अंग्रेजी) को सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में दिनांक 03 मार्च 2005 से सहायक निदेशक (राजभाषा) (ग्रुप ख

राजपत्रित) वेतनमान रुपए 7,500 से रुपए 12,000 के पद पर पदोन्नत करते हैं।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. 299, दिनांक 09 मई 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में :--

ए. गड़ियोक (14699), प्रशा., 01 अक्टूबर 2004

पी. मोहना चन्द्रन (14704), प्रशा., 01 अक्टूबर 2004

एल. के. विग (14732), प्रशा., 01 मार्च 2005

जी. एल. हिरेमथ (14947), प्रशा., 24 मई 2005

जी. के. पटनायक (14735), प्रशा., 01 दिसम्बर 2005

के. बी. शंकर,
संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2(बी)

रक्षा मंत्रालय

सं. 300, दिनांक 05 मई 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री धर्म प्रकाश की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 अप्रैल, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

बी. सरस्वती,
उप-सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th June 2006

No. 285, dated 5th May 2006.—The President is pleased to appoint Shri Ravindra Kumar Yadav as 1st P. A. to Raksha Utpadan Rajya Mantri (Rao Inderjit Singh) in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- w.e.f. 01 February, 2006 (FN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Sanjoy Shankar, Section Officer, borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Desk officer in the same Ministry w.e.f. the forenoon of 5th April, 2006 until further orders.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

(FINANCE DIVISION)

No. 286, dated 4th May 2006.—The President is pleased to appoint Shri KLP Rao, an Officer of Indian Audit and Accounts Service (1972) as Financial Adviser (Acquisition) and Member (Defence Procurement Board) and Additional Secretary in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 10th April, 2006.

The President is pleased to appoint Shri Charanjit Lal, CSS as Deputy Financial Adviser on ad-hoc basis in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from the forenoon of 3rd April, 2006 until further orders.

D. K. PANDEY
Director (Fin/E)

ARMY BRANCH

No. 287, dated 9th May 2006.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 3/S/70:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 06 Mar 2004 with seniority for promotion from 06 Nov 1999 but for increments of pay from 06 Mar 1999 on relinquishing their SSC wef 06 Mar 2004. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name and Arm/Service

SS-37747 (IC-56491N), Priyadarshan Chaudhary, Arty

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 04 Mar 2005 with seniority for promotion from 04 Nov 2000 but for increments of pay from 04 Mar 2000 on relinquishing their SSC wef 04 Mar 2005. Their inter-se-seniority vis-a-

vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name and Arm/Service

SS-38426 (IC-64923M), Pradip Mukherjee, Engrs

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 02 Sep 2005 with seniority for promotion from 02 May 2001 but for increments of pay from 02 Sep 2000 on relinquishing their SSC wef 02 Sep 2005. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC.

SS No., IC No., Name and Arm/Service

SS-38768 (IC-65082F), Arun Kumar Dutta, Engrs

MLN SRAVAN KUMAR
Col
Col MS-7

No. 288, dated 9th May 2006.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

(To be Lts w.e.f. 11 Jun 2005)

Sreenath Reddy C (IC-67035H), AAD seniority next below Jithesh P (IC-67034A), Inf whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 14 Jan 2006.

CHANDER SHEIKHAR
Lt Col
AMS-8B

NAVY BRANCH

No. 289, dated 9th May 2006.—The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (Naval Armament Inspection Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. OF/1601/NHQ/1158/US(P)/D(N-II) dated 04 Sep 2002 from the date shown against each name.

To be Sub Lt (On Probation)

Direct Entry Scheme (Executive Branch-NAIC)

Name, Personal No., Type of Commission and Date of Commission

Inje Srinivas Bhagwandas (05198N), PC—02 Jul 2001

Shishir Kumar Yadavannavar (05200T), PC—04 Jul 2001

OP VERMA
Cdr
JDMPR (R&R)

No. 290, dated 5th May 2006.—The President is pleased to extend the appointment of following Grade 'C' Stenographers borne on the CSSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretary [Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSS] in the same Ministry on ad-hoc basis for the further period mentioned against each or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier:—

Name of the Officer, from and to

J. P. Mathur, 01 Mar 2006 —31 May 2006

Rajinder Pd. Sharma, 01 Mar 2006 —31 May 2006

Narender Chadha, 01 Mar 2006 —31 May 2006

Harvinder Chawla, 01 Mar 2006 —31 May 2006

V. SARASWATHY
Dy. Secy.

(FINANCE DIVISION)

No. 291, dated 4th May 2006.—The President is pleased to continue the appointment of Shri S. P. Kapoor Grade 'C' Stenographer borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretary on ad-hoc basis in this Division for a further period from 01 Mar 2006 to 31 May 2006 or until further orders whichever is earlier.

D. K. PANDEY
Director (Fin/Estt.)

AIR BRANCH

No. 292, dated 8th May 2006.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer, who were granted Short Service Commission (on probation) wef the date as stated against their names:—

AERONAUTICAL ENGINEERING

(MECHANICAL & ELECTRICAL) BRANCH

Fg Offr Rajul Jain (28155) AE(L), Sekar Gayathri (28142) AE(L), Priyanka Bhattacharya (28164) AE(L), Richa Mantri (28153) AE(M), Sapna Nanasahb Deshmukh (28138) AE(M), Jayasheela G (28165) AE(M), Venu Dhariwal (28143) AE(M), Vilma Almengada Muddappa (28151) AE(M), Thanislas Antony Anto Gaity Suhanya (28152) AE(M), Limna Narayanan (28154) AE(M), D Shubha Vani (28139) AE(M), Ananya Ray (28141) AE(M), Neha Puri (28150) AE(M), Girija Devi Mohanan Sarasamma (28145) AE(M), Priya Deep (28149) AE(M), Piyush Yadava (28166) AE(M), Sumati Sanzgiri (28148) AE(M), Renu (28147) AE(M), Manpreet Kaur (28167) AE(M), Sowmyalatha Shetty (28146) AE(M), Latika Sharma (28144) AE(M) w.e.f. 29 Jun 2005.

S SRIVASTAV
Wg Cdr
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

REGULAR ARMY

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

No. 293, dated 4th May 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Subedar: Clk (GD/SD)

Nb Sub Joseph Patrick (JC-642277X), 09 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub Dalip Singh Chambel (JC-642278A), 01 Jan 2006

Nb Sub Ram Niwas Agnihotri (JC-642697X), 16 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub Prem Singh (JC-642365N), 01 Feb 2006

Nb Sub Birender Singh (JC-642363H), 04 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub Pradeep Kumar Mittal (JC-642364L), 01 Feb 2006

Nb Sub Satpal (JC-642366W), 01 Feb 2006

Nb Sub Bhabha Ranjan Ray (JC-642367Y), 01 Feb 2006

Nb Sub Ram Narayan Sah (JC-642388P), 01 Mar 2006

Nb Sub Kuldip Singh Rana (JC-642389X), 01 Mar 2006

Nb Sub Uday Pal Singh (JC-642390M), 01 Mar 2006

Nb Sub Rajbir Singh (JC-642391P), 03 Mar 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allces).

To be Subedar: Personal Assistant

Nb Sub Mohanan Pillai VN (JC-642694K), 01 Jan 2006

Nb Sub Balasubramanian R (JC-642799N), 15 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allces).

Nb Sub Tilak Raj (JC-642812M), 22 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allces).

Nb Sub Rakesh Kumar Sagar (JC-642814X), 01 Feb 2006

Nb Sub Lukose VT (JC-642856K), 01 Mar 2006

Nb Sub Ashok Kumar Sirohi (JC-642817L), 01 Mar 2006

Nb Sub Dilip Kumar Singh (JC-642804N), 01 Mar 2006

To be Naib Subedar Clk (GD/SD)

Hav Paramhans Yadava (6378308K now JC-663816W),
02 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allces).

Hav Rajeshwar Yadav (6378311K now JC-663817Y),
01 Feb 2006

Hav Ram Ujagir (6378314X now JC-663818F), 01 Feb
2006

Hav Omendra Pal Singh Chauhan (6378310F now JC-
663828L), 01 Feb 2006

Hav Jaibir (6378307F now JC-663882Y), 10 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allces).

Hav Suresh Chandra Prajapati (6378324F now JC-
663883F), 01 Mar 2006

Hav Shiv Karan Singh (6378454K now JC-663884K),
01 Mar 2006

Hav Vipin Kumar Kunihal (6378507X now JC-
663885M), 01 Mar 2006

Hav Vidya Sagar (6378552K now JC-663886P), 01 Mar
2006

Hav Vijay Shankar Singh (6378593N now JC-663887X),
01 Mar 2006

Hav V S Gunasekaran (6378584F now JC-663888A),
01 Mar 2006

Hav G Sundra Rajan (6378636X now JC-663889H),
01 Mar 2006

Hav Inder Singh (6378620M now JC-663890X),
01 Mar 2006

Hav Hemant Kumar Mishra (6378644W now JC-
663891A), 01 Mar 2006

To be Nb Sub Personal Assistant

Hav Deep Chand (6376427F now JC-663819K), 10 Jan
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003
without effect on pay and allces).

Hav Net Ram Bairagi (6379943F now JC-663820Y),
01 Feb 2006

Hav Soman TM (14614473X now JC-663829N), 28 Jan
2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allces).

Hav Sher Bahadur (6379115W now JC-663830H),
01 Feb 2006

Hav Vishnudeo Prasad Chauhan (6379862F now JC-
663831L), 01 Feb 2006

Hav Umesh Singh (2981207A now JC-663892H),
01 Mar 2006

Hav Ramesh Chand Yadav (6378095F now JC-
663893L), 01 Mar 2006

Hav Mahesh Chandra Yadav (2778960K now JC-
663894N), 01 Mar 2006

Hav Bijoy Kumar Roy (6378067P now JC-663895W),
01 Mar 2006

Hav Madan Lal (6378927X now JC-663896Y), 01 Mar
2006

(MECHANICAL TRANSPORT)

The President is pleased to make the following
promotions:—

To be Naib Subedar (MT)

Hav Vijay Kumar Prabhu Nath Tiwari (13883849M
now JC-663760P), 08 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004
without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Kumar Rai (13884328L now JC-663761X),
29 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004
without effect on pay and allowances).

Hav Ram Dawan (13877706W now JC-663762A),
18 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kumar (13881699H now JC-663763H),
28 Dec 2005*

Hav Dande Venkateswara Rao (13885647K now JC-
663764L), 18 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Babu Lal Yadav (13886304A now JC-663765N),
15 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Ram Milen Yadav (13885968F now JC-663766W),
31 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Umed Singh (13886302P now JC-663767Y),
13 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Kishun Prasad Sahu (13891357H now JC-663768F),
19 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Kunar Pal Singh (13885905Y now JC-663769K),
01 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Md Nazim (13891701H now JC-663770Y), 15 Dec
2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Abdul Salam (13891723F now JC-663771F),
01 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Bhagwan Bhagat (13886533L now JC-663772K),
31 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Hari Narayan Rai (13891121N now JC-663773M),
22 Dec 2005*

Hav Somnath (13889455K now JC-663774P), 19 Dec
2005*

Hav Biswanath Ghosh (13884126K now JC-663775X),
10 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2005 without effect on pay and allowances).

Hav Teja Ram (13891328N now JC-663776A), 01 Dec
2005

Hav Jaiveer Singh (13885457X now JC-663777H),
03 Jan 2006*

Hav Paras Nath Singh (13883606F now JC-663778L),
17 Dec 2005*

Hav Padama Charan Mohanti (13890294Y now JC-
663779N), 17 Dec 2005*

Hav Madan Singh (13887485H now JC-663780H),
23 Dec 2005*

Hav Ilam Chand (13891349K now JC-663781L),
01 Dec 2005

Hav Raj Deo Singh (13891185Y now JC-663782N),
12 Jan 2006*

Hav Suresh Babu (13889232M now JC-663783W),
20 Dec 2005*

Hav Nisar Ahmed (13888681P now JC-663784Y),
26 Dec 2005*

Hav TPL Bhai Madhu Bhai (13887575K now JC-
663785F), 12 Jan 2006*

Hav Rajendra Prasad Napit (13890857N now JC-
663786K), 17 Jan 2006*

Hav Sadan Chandra Roy (13889175W now JC-
663787M), 05 Jan 2006*

Hav Vijay Pal Singh (13886730N now JC-663788P),
03 Jan 2006*

Hav Md Fazal Ahmed (13890871A now JC-663789X),
26 Dec 2005*

Hav P Thangamani (13886940N now JC-663790M),
06 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Yash Pal (13877588N now JC-663791P), 03 Jan
2006*

Hav C L Bhai Babu Rao (13887297F now JC-663792X),
03 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Rajender Singh (13886355N now JC-663706F),
24 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Akoijam Robindro Singh (14814930K now JC-
663832N), 24 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Malledu Sreenivasulu (13889259K now JC-
663833W), 10 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Arjun Prasad (13889431A now JC-663834Y),
26 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Ram Krishna Prasad (13883380F now JC-663835F),
19 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Gandharb Singh (13888114M now JC-663836K),
24 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Gokal Chandra Sharma (13888349Y now JC-
663837M), 06 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

Hav K Venkateswara Rao (13885652P now JC-663838P), 08 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ramji Prasad (13889885N now JC-663839X), 22 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Kishan (13890795Y now JC-663840M), 16 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Ashok Kumar Mishra (13887110K now JC-663841P), 01 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Birendra Nath Majumdar (13887124K now JC-663842X), 30 Jan 2006*

Hav Kameshwar Singh (13891425L now JC-663843A), 17 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Arup Kumar Sahana (13889250P now JC-663844H), 18 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Kumar Tripathi (13890676H now JC-663845L), 23 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Nawal Kishore Singh (13887160P now JC-663846N), 23 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Jaswinder Singh (13887518H now JC-663847W), 27 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Jag Ram Singh (13886425F now JC-663848Y), 10 Feb 2006*

Hav Krishna Pal Singh (13890862Y now JC-663849F), 09 Jan 2006*

Hav Hira Singh (13886767P now JC-663850W), 25 Jan 2006*

Hav Jotiba Hari Godase (13891093M now JC-663851Y), 27 Jan 2006*

Hav Ram Datt Bhatt (13889512A now JC-663852F), 21 Jan 2006*

Hav Narendra Singh Dhami (13887467A now JC-663853K), 21 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Anandi Sharma (13889432H now JC-663854M), 23 Jan 2006*

Hav Md Sahazahan (13885442P now JC-663855P), 03 Feb 2006*

Hav Sundara Rajan (13889994A now JC-663856X), 14 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Narendra Kumar Rai (13890899A now JC-663857A), 01 Jan 2006

Hav Naresh Chandra (13885483Y now JC-663858H), 10 Feb 2006*

Hav Munesh Kumar (13883056K now JC-663859L), 04 Feb 2006*

Hav Chandra Kant Kumar (13885740L now JC-663860A), 16 Jan 2006*

Hav Ran Vijai Singh (13894163L now JC-663861H), 01 Feb 2006*

Hav Suresh Kumar (13890830W now JC-663862L), 02 Feb 2006*

Hav Tej Singh (13889556X now JC-663863N), 13 Feb 2006*

Hav Suria Narain Singh (13883535L now JC-663864W), 02 Feb 2006*

Hav Sita Ram Singh Tomar (13887586W now JC-663865Y), 08 Feb 2006*

Hav Ramesh Kumar (13889110H now JC-663866F), 04 Feb 2006*

Hav Ram Niwas Kavi (13891100X now JC-663867K), 04 Feb 2006*

Hav Horendra Singha (13889272N now JC-663868M), 28 Jan 2006*

Hav Shiba Prasad Mahapatra (13886040K now JC-663869P), 21 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Devta Deen (13890888N now JC-663870K), 03 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Bineswar Roy (13881930A now JC-663871M),
19 Jan 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005
without effect on pay and allowances).

Hav Sumer Singh (13894023Y now JC-663872P),
01 Feb 2006

Hav Prabhas Chandra Baral (13890247F now JC-
663873F), 01 Feb 2006

Hav Birendra Singh (13891178H now JC-663874A),
13 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Mahesh Kumar Choudhary (13884192M now JC-
663875H), 20 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006
without effect on pay and allowances).

Hav Babu N (13886952H now JC-663876L), 01 Feb
2006

Hav Rajender Singh (13886471W now JC-663877N),
26 Feb 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006
without effect on pay and allowances).

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Sub Kamaljit Singh (JC-203608K), 13 Feb 2006/
01 Jan 2006*

Sub Shaikh Mastan (JC-255305K), 14 Feb 2006/
01 Jan 2006*

Sub Sube Singh Mann (JC-257256L), 02 Mar
2006/01 Jan 2006*

Sub Gian Singh (JC-256874K), 03 Feb 2006/01 Feb
2006*

Sub A Angamuthu SM (JC-256870H), 01 Jan 2006

Sub Vijay Kumar (JC-257437W), 02 Mar 2006/01 Mar
2006*

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Ram Nath (JC-200248M), 12 Jun 2003/01 May
2003*

Sub Radhakrishnan K (JC-214403P), 01 Jul 2003

Sub Mamood Koya (JC-226104H), 01 Sep 2004

Sub Mohan Ram Yadav (JC-203323X), 02 Sep 2004/
01 Sep 2004*

Sub Babu Raj KE (JC-256616K), 08 Sep 2005/01 Sep
2005*

Sub Pritam Singh Soni (JC-259243M), 01 Jan 2006

Sub Narender Kumar (JC-257513X), 13 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Sub Karam Singh (JC-225918K), 18 Mar 2006/01 Mar
2006*

Sub Tapan Kumar (JC-256423K), 16 Mar 2006/01 Mar
2006*

Sub PX Thankachan (JC-259678P), 19 Mar 2006/
01 Mar 2006*

To be Nb Sub

Hav Muraleedharan A (14363885K now JC-268855L),
17 Oct 2005/01 Aug 2005*

Hav Amar Singh (14482370N now JC-268856N),
28 Nov 2005/01 Sep 2005*

Hav A Mahadevan (14370540L now JC-268857W),
23 Jan 2006/19 Nov 2005*

Hav Raj Harash (14477614M now JC-268858Y),
21 Jan 2006/22 Nov 2005*

BHM Sukhwinder Singh (14478076W now JC-
268859F), 13 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Pratap Chand (14479420H now JC-268860W),
20 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav Lal Singh (14472835P now JC-268861Y), 19 Jan
2006/05 Dec 2005*

BHM Harbir Singh (14474353Y now JC-268862F),
03 Feb 2006/13 Dec 2005*

BHM Jagat Bahadur Singh (14487416P now JC-
268863K), 16 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Ram Chandra (14361423Y now JC-268864M),
24 Feb 2006/05 Jan 2006*

Hav Kundanam Ranga Reddy (15111955P now JC-
268865P), 22 Feb 2006/29 Jan 2006*

Hav Subhash Chand (14480734W now JC-268866X),
24 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Dharam Singh Shekhawat (14366387H now JC-
268867A), 21 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Babu Lal Meena (14482503Y now JC-268868H),
01 Feb 2006

Hav Buta Ram (14373550A now JC-268869L), 08 Feb
2006/01 Feb 2006*

Hav Seikh Iqbal Hussain (14488035A now JC-
268870A), 01 Feb 2006

CHM M D Badrod Doza (14477899K now JC-268827Y),
07 Feb 2006/03 Nov 2005*

RHM Ram Lal (14388790P now JC-268828F), 14 Jan
2006/31 Dec 2005*

RHM Narayana Reddy Chila Kala (15120709L now
JC-268829K), 14 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Garappadu Rayapu (15125525W now JC-268830Y), 16 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Rajeshan C M (15115667A now JC-268831F), 14 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Ram Lal (15109787H now JC-268832K), 22 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Braham Prakash (15113847K now JC-268833M), 14 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Huldar Singh (14399789A now JC-268834P), 21 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Ramawatar (15115739Y now JC-268835X), 14 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Gurpal Singh Mehta (14400639Y now JC-268836A), 24 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Sagolhem Lakshman Singh (15116269L now JC-268837H), 21 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Chittaranjan Adhikary (15118928N now JC-268838L), 14 Jan 2006/31 Dec 2005*

RHM Upendra Kumar Sharma (15114432F now JC-268839N), 14 Jan 2006/31 Dec 2005*

*(Gtd seniority wef)

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

BHM Kuldeep Raj (14362545P now JC-299439H), 27 Dec 2005/05 Dec 2005*

RHM Suseelan CK (14378429W now JC-299440X), 14 Jan 2006/01 Jan 2006*

BHM Sambaji Sargare (14381658M now JC-299441A), 21 Feb 2006/25 Jan 2006*

BHM Kishan Lal Gurjar (14384398X now JC-299442H), 01 Feb 2006

BHM Ranbir Singh (14382451Y now JC-299443L), 01 Feb 2006

BHM Puran Singh (14374888X now JC-299444N), 01 Feb 2006

RHM Naresh Kumar (14483074P now JC-299445W), 01 Feb 2006

BHM Kunwar Singh (14359930N now JC-299446Y), 01 Feb 2006

Hav Shaji N (14382468M now JC-299447F), 01 Feb 2006

BHM Jaspal (14354774L now JC-299448K), 01 Feb 2006

BHM Swapan Chandra Ghosh (14384689X now JC-299449M), 06 Feb 2006/01 Feb 2006*

BHM Rachpal Singh (14373009M now JC-299450F), 06 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Togi Jagannatha Rao (14359684N now JC-299451K), 13 Feb 2006/01 Feb 2006*

BHM Roop Singh (14361526X now JC-299452M), 21 Feb 2006/17 Feb 2006*

Hav Balwinder Singh (14377539Y now JC-299453P), 01 Mar 2006

BHM Harendra Rai (14478047F now JC-299454X), 01 Mar 2006

RHM Haider Kathat (14409072P now JC-299455A), 23 Jan 2006/28 Dec 2005*

RHM P Veera Puthiran (14414042F now JC-299456H), 23 Jan 2006/28 Dec 2005*

RHM Tulashi Charan Ghosh (14412724N now JC-299457L), 17 Jan 2006/28 Dec 2005*

RHM Vikram Singh (14406632L now JC-299458N), 12 Jan 2006/28 Dec 2005*

Hav Gopal Malla (14476840X now JC-299459W), 01 Feb 2006/01 Jan 2006*

Hav Ashok Kumar Yadav (14376060X now JC-299460L), 16 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Narinder Singh Manihani (14376219X now JC-299461N), 01 Mar 2006

BHM Hare Ram Singh (14369882M now JC-299462W), 16 Jan 2006/28 Nov 2005*

BHM Ajay Kumar (14385302W now JC-299463Y), 14 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav Anuj Kumar (14366636W now JC-299464F), 03 Mar 2006/01 Jan 2006*

BHM M Ramakrishnan (14361121M now JC-299465K), 01 Feb 2006

Hav Ravindra Kumar (14368595W now JC-299466M), 01 Feb 2006

RHM Manjit Singh (14353501W now JC-299467P), 06 Feb 2006/01 Feb 2006*

BHM Dil Bahadur Thapa (14379610A now JC-299468X), 13 Feb 2006/01 Feb 2006*

Hav Shiv Prasad (14487402P now JC-299469A), 16 Feb 2006/01 Feb 2006*

BHM Kaushal Prasad Dwivedi (14361652K now JC-299470P), 01 Mar 2006

BHM Balwinder Singh (3381218L now JC-299471X), 01 Mar 2006

RHM Prasad P (14374633X now JC-299472A), 01 Mar 2006

BHM Shiv Pratap Singh (14473109M now JC-299473H), 01 Mar 2006

BHM Vadala Khasim Peera (14374830A now JC-299474L), 01 Mar 2006

*(Gtd ante-date seniority wef)

SPECIAL LIST

CORPS OF SIGNALS

To be Nb Sub (Religious Teachers) (Pandit)

Pramod Kumar Shukla (JC-375256H), 01 Nov 2003

Ramanand Tiwari (JC-375437N), 01 Nov 2003

Sanjay Kumar Sharma (JC-375540Y), 25 Sep 2004

Umesh Kumar Tripathi (JC-375709H), 11 Dec 2004

Ram Teerath Tripathi (JC-375710X), 11 Dec 2004

Dinesh Chandra Shukla (JC-375711A), 19 Feb 2005

Govind Shastri (JC-375712H), 19 Feb 2005

Shailendra Kumar Pandey (JC-375713L), 19 Feb 2005

Brijeshwar Prasad Dwivedi (JC-375916P), 20 Aug 2005

Tripathi Nikhileshwari Raman (JC-376249Y), 10 Dec 2005

Ved Prakash Misra (JC-376250N), 10 Dec 2005

To be Substantive Subedar (Religious Teacher) (Pandit)

Nb Sub Ram Nath (JC-368102N), 12 Apr 2003

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Awadhesh Prasad Tiwari (JC-368790X), 01 Jan 2004

Nb Sub Peeyush Deo Sarswat (JC-369072N), 01 Dec 2004

Nb Sub Bhairaw Nath Pathak (JC-369074Y), 13 Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kripa Shankar Verma (JC-369071L), 08 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Keshav Nath Pandey (JC-369452M), 14 Jan 2005

Nb Sub Shree Ram Mishra (JC-369749N), 14 Jan 2005

To be Substantive Subedar Major (Religious Teacher) (Pandit)

Sub Digamber Prasad Baluni (JC-89514K), 01 Mar 2003

Sub Ram Manohar Tiwari (JC-89958N), 01 Apr 2003

Sub Lal Mani Mishra (JC-91041P), 01 May 2003

Sub Kulbhushan Mishra (JC-92716W), 01 Nov 2003

Sub Narayan Rao (JC-92721F), 08 Dec 2003

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances).

Sub Dashrath Prasad Tripathi (JC-92722K), 01 Jan 2004

Sub Amar Nath Tripathi (JC-93723M), 16 Jan 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances).

Sub Ram Bilas Tiwari (JC-94410M), 01 Apr 2004

Sub Jagdish Prasad Goswamy (JC-102057H), 01 Mar 2005

Sub Lal Mani Tripathi (JC-124888F), 04 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Ramjeet Mishra (JC-124886W), 01 Jun 2005

Sub Bhagwan Prasad Shukla (JC-124887Y), 01 Jun 2005

To be Substantive Subedar Major (Religious Teacher) (Padrie)

Sub Bano Joseph Vijaya Raj Kumar (JC-95076H), 07 Jun 2004

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

S. P. SHARMA
Under Secy.

No. 294, dated 5th May 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Subedar

Nb Sub Bhullan Singh (JC-802972N), 07 Nov 2005 @

Nb Sub Yogesh Kumar Saini (JC-802978P), 08 Dec 2005 @

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Shyam Singh Shekhawat (JC-802994M), 01 Nov 2005

Nb Sub R Ilango (JC-803001P), 01 Nov 2005

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-803006N), 01 Dec 2005

Nb Sub Ram Laraitey Srivastava (JC-803007W), 01 Dec 2005

Nb Sub M Venkata Rama Kumar (JC-803009F), 01 Dec 2005

Nb Sub Parshotam Lal Sharma (JC-803014M), 01 Dec 2005

Nb Sub Harish Chandra Upreti (JC-803019L), 10 Dec 2005#

Nb Sub Shri Bhagwan (JC-803012F), 01 Dec 2005

Nb Sub Ram Prasad (JC-803016X), 05 Dec 2005#

#(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ashok Kumar Rathi (JC-803025Y), 01 Jan 2006

Nb Sub Ulphat Singh (JC-803029P), 01 Jan 2006

Nb Sub Raj Kumar (JC-803036L), 01 Jan 2006

Nb Sub/Clk Sunit Kumar (JC-803181H), 02 Jan 2006=
=(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar

Hav Kamlesh Kumar Pandey (No. 9509706M now JC-803745A), 22 Jun 2005@

Hav Jagdish Pal (No. 9509827N now JC-803751N), 22 Jun 2005@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Kumar (No. 9509859W now JC-803774P), 30 Aug 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Pal (No. 9509865K now JC-803776A), 01 Sep 2005

Hav Ramesh Singh Gusain (No. 9509867P now JC-803777H), 01 Sep 2005

Hav Ram Pratap (No. 9509872A now JC-803780H), 01 Sep 2005

Hav Jai Krishen Tikoo (No. 9509873H now JC-803781L), 01 Sep 2005

Hav Shamsher Singh (No. 9509876W now JC-803783W), 22 Oct 2005#

Hav Brahma Nand Dwivedi (No. 9509877Y now JC-803784Y), 26 Oct 2005#

Hav Radhay Sham (No. 9509878F now JC-803785F), 22 Oct 2005#

Hav Shyam Bihari Ray (No. 9509879K now JC-803786K), 22 Oct 2005#

Hav Sukanta Kumar Mallick (No. 9509885X now JC-803789X), 21 Oct 2005#

Hav Jit Pal (No. 9509888L now JC-803790M), 22 Oct 2005#

Hav Ram Prakash Shukla (No. 9509890H now JC-803792X), 10 Nov 2005#

Hav Bhupinder Pal Singh (No. 9509904X now JC-803796N), 22 Oct 2005#

Hav Bhupal Singh (No. 9509910L now JC-803799F), 05 Nov 2005#

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Hav Navin Chandra Khulbe (No. 9509911N now JC-803800L), 04 Nov 2005\$

Hav Umed Singh (No. 9509912W now JC-803810N), 07 Nov 2005\$

Hav Pramod Chandra Pandey (No. 9509931F now JC-803803Y), 01 Nov 2005

Hav Narayana Dakua (No. 9509932K now JC-803804K), 07 Nov 2005\$

Hav Chimman Lal Seni (No. 9509936A now JC-803806M), 01 Nov 2005

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

V. K. KAPOOR
Under Secy.

No. 295, dated 5th May 2006.—The President is pleased to make the following promotion:—

**TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION**

To be Maj

TA-42286 Capt Krishna Kumar, Infantry—04 Jul 2005

B. K. MALHOTRA
Under Secy.

No. 296, dated 9th May 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)**

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

NK Parmar (MR-03364X), 07 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay and pension from 02 Jun 2005.

HS Guleria (MR-03743N), 01 Sep 2005

AIR HEADQUARTERS

VP Pathania (MR-03385N), 06 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay and pension from 02 Sep 2005.

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

N Raychaudhuri (MR-03419W), 06 Apr 2005 with notional seniority without effect on pay and pension from 29 Jan 2005.

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (P)

No. 298, dated 4th May 2006.—The President is pleased to promote Shri Ram Niwas, Sr Trans (E/H) of AFHQ/IS Organisation Service as Asstt. Dir. (OL) (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500—12,000/- with effect from 03 Mar 2005.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Administrative Officer

No. 297, dated 8th May 2006.—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

IC No., Rank, Name, Arm and D. O. Subs Maj Gen

IC-23011 Brig I J Koshy, Arty—01 Mar 2003

To be Substantive Brigadier

IC No., Rank, Name, Arm and D. O. Subs Brig

IC-27676 Col Arjun Roye, AOC—02 Apr 2004 with seniority from 08 Jul 2003 without effect on pay and pension.

IC-30029 Col CM Rai, M LI—01 May 2004 with seniority from 09 Jan 2004 without effect on pay and pension.

N K PHUKAN
AMS/MS(X)

No. 299, dated 9th May 2006.—The President is pleased to make the following Substantive Promotion:—

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

To be Substantive Gp Capt (Adm Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

G/C (Actg) A Gadhiok (14699), Adm—01 Oct 2004

G/C (Actg) P Mohanachandran (14704), Adm—01 Oct 2004

G/C (Actg) L K Vig (14732), Adm—01 Mar 2005

G/C (Actg) G L Hiremath (14947), Adm—24 May 2005

G/C (Actg) G K Patnaik (14735), Adm—01 Dec 2005

K V SHANKAR
Jt. Director of Personnel (Officers)-2(B)

No. 300, dated 5th May 2006.—The President is pleased to retire Shri Dharam Prakash, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30 Apr 2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SARASWATHY
Dy. Secy.